

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 427]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

#### अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-36/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत, राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ. ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. राजपुर नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

### अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	गुरुघासी दास वार्ड
2	संतज्ञानेश्वर वार्ड
3	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
4	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
5	सरदार भगत सिंह वार्ड
6	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
7	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
8	महात्मा गांधी वार्ड
9	राजीव गांधी वार्ड
10	अग्रसेन वार्ड
11	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
12	रविदास वार्ड
13	इंदिरा गांधी वार्ड
14	राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
15	बिरसामुंडा वार्ड

## राजपुर नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

### वार्ड क्रमांक 1, गुरुघासी दास वार्ड :-

- उत्तर - बर दोहोर होते हुए नन्दू के घर, नागेश्वर के घर से पनही नाला तक।  
 पूरब - पनही नाला से बिनोद के घर ठिभू के घर होते हुए महादेव बाबा से कटाई दोहोर तक।  
 दक्षिण - कटाई दोहोर से कदम दोहोर होते हुए राईस ढोढ़ी से धनपाल के घर से खटखुरिया नाला तक।  
 पश्चिम - खटखुरिया नाला से होते हुए मैना रजवार घर से बर दोहोर तक।

### वार्ड क्रमांक 2, संतज्ञानेश्वर वार्ड :-

- उत्तर - कटाई दोहोर होते हुए अजीत के घर से करानाखा झींगो नाखा होते हुए कूप करचा प्लानटेशन तक।  
 पूरब - कूप करचा प्लानटेशन होते हुए बथान प्लानटेशन तक।  
 दक्षिण - बथान प्लानटेशन से लोंगरा तालाब होते हुए बिजली खम्भा वनखेता प्लानटेशन होते हुए गनी बांध तक।  
 पश्चिम - गनी बांध होते हुए गम्हार लोंगरा प्लानटेशन तथा घोटोरिया बाबा से अच्छु घर होते हुए बाईर दोहोर से सेमरा दोहोर टायर बांध होते हुए कटाई दोहोर तक।

### वार्ड क्रमांक 3, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड :-

- उत्तर - सेमरा सागौन प्लानटेशन के किनारे से होते हुए वनखेता तालाब तक।  
 पूरब - वनखेता तालाब से प्लानटेशन के किनारे होते हुए जल संसाधन कार्यालय तक।  
 दक्षिण - जल संसाधन कार्यालय से होते हुए बाजार एवं तालाब के किनारे से बदकरी पारा रोड होते हुए रामाशंकर के घर से नौकी सीमा तक।  
 पश्चिम - नौकी सीमा एवं बगाड़ी सीमा होते हुए उत्तर सेमरा सागौन प्लानटेशन तक।

### वार्ड क्रमांक 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड :-

- उत्तर - नौकी सीमा से होते हुए त्रिलोकी के घर से बच्चू लाल के घर से खेत होते हुए बदकरी पारा रोड़ बलदेव एवं बरगद पेड़ तक।  
 पूरब - बलदेव के घर से लक्ष्मी के घर होते हुए मंगलसाय के घर में रोड़ तक।  
 दक्षिण - में रोड़ मंगल के घर से शिवशरण के घर होते हुए त्रिलोकी के घर तक।  
 पश्चिम - ग्राम पंचायत नौकी के सीमा होते हुए बच्चू लाल के घर के बगल तक।

**वार्ड क्रमांक 5, सरदार भगत सिंह वार्ड :-**

- उत्तर - संदीप लकड़ा घर से दरहाबाबा मंदिर तक।  
 पूरब - पानी टंकी होते हुए डां प्रीतम राम के घर तक।  
 दक्षिण - प्रेमनाथ सोनी घर से होते हुए दरहाबाबा तालाब तक।  
 पश्चिम - भीम बंसल घर से दरहाबाबा मंदिर तक।

**वार्ड क्रमांक 6, डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड :-**

- उत्तर - कोरवा कालोनी आवासीय प्लाट होते हुए वन विभाग कार्यालय तक।  
 पूरब - वन विभाग कार्यालय होते हुए रामानुजगंज रोड से दरहाबाबा खाली भूमि सी.सी. रोड तक।  
 दक्षिण - मो. इकबाल के घर से अर्जुन गुप्ता कबाड़ी दुकान तक।  
 पश्चिम - मिशन स्कूल से बंधु सोनी कोरवा कालोनी तक।

**वार्ड क्रमांक 7, पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड :-**

- उत्तर - गाँधी चौक से रामानुजगंज मेन रोड होते हुए बालक हाईस्कूल रोड तक।  
 पूरब - बालक हाईस्कूल रोड से हाईस्कूल स्टेडियम ग्राउण्ड होते हुए रामबदन के घर से महेस्वर के घर होते हुए। कुसमी रोड बुढ़ाबगीचा तक।  
 दक्षिण - रामभरोस के घर से होते हुए कुसमी रोड होते हुए राजीव गाँधी आदर्श विद्यालय होते हुए गाँधी चौक तक।  
 पश्चिम - गाँधी चौक से भीम के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 8, महात्मा गांधी वार्ड :-**

- उत्तर - भरत गुप्ता के घर से मेन रोड होते हुए गाँधी चौक होते हुए बुढ़ाबगीचा सीमा तक।  
 पूरब - बुढ़ाबगीचा से जीवन अग्रवाल के घर होते हुए खेत तक।  
 दक्षिण - मथुरा के घर से खेत होते हुए भरत के घर तक।  
 पश्चिम - खेत होते हुए मेन रोड में भरत के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 9, राजीव गांधी वार्ड :-**

- उत्तर - नंदकेश्वर के घर एवं बृजेश के घर होते हुए मेन रोड होते राजेन्द्र तिवारी के घर तक।  
 पूरब - राजेन्द्र तिवारी के घर से खेत होते हुए खुटनपारा खेत तक।  
 दक्षिण - खुटनपारा खेत होते नंदकेश्वर बृजेश के घर तक।  
 पश्चिम - नंदकेश्वर के घर होते हुए मेन रोड तक।

**वार्ड क्रमांक 10, अग्रसेन वार्ड :-**

- उत्तर - विश्वनाथ पाण्डेय घर से सरस्वती घर तक।  
 पूरब - नंदकेश्वर के घर से खेत होते हुए खुटनपारा खेत तक।  
 दक्षिण - खुटनपारा खेत होते हुए बैजू तालाब तक।  
 पश्चिम - बैजू तालाब से कोशा फार्म रोड़ खेत नारद तिवारी के घर से होते हुए पेट्रोल पम्प तक।

**वार्ड क्रमांक 11, स्वामी विवेकानन्द वार्ड :-**

- उत्तर - विश्वनाथ पाण्डेय के घर से बैजू तालाब होते हुए खेत तक।  
 पूरब - खेत से होते हुए इन्दर प्रसाद के घर होते हुए नदी तक।  
 दक्षिण - जगमोहन घर से विशाल घर तक।  
 पश्चिम - सरस्वती घर से होते हुए विश्वनाथ पाण्डेय के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 12, रविदास वार्ड :-**

- उत्तर - सोमारू के घर होते हुए सोहराई के घर तक एवं श्याम सुन्दर पाण्डेय के घर से खुटनपारा रोड़ तक।  
 पूरब - श्याम सुन्दर पाण्डेय घर होते से रामअवतार के घर तक।  
 दक्षिण - रामअवतार के घर से धोबीराम के घर होते हुए खुटनपारा खेत तक।  
 पश्चिम - धोबीराम के घर से खुटनपारा बरगाहपारा होते हुए श्रीराम के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 13, इंदिरा गांधी वार्ड :-**

- उत्तर - शिवकुमार के घर के बगल वाला खेत से बरगाहपारा रोड़ होते हुए शंकर के घर तक।  
 पूरब - शंकर के घर से खेत होते हुए बिन्दु के घर तक।  
 दक्षिण - बिन्दु के घर से होते हुए खेलसाय के घर होते हुए नदी तक।  
 पश्चिम - प्रेमसाय के घर से होते हुए नानसाय के घर होते इन्द्रप्रसाद के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 14, राजेन्द्र प्रसाद वार्ड :-**

- उत्तर - सोहराई घर से खुटनपारा रोड़ होते हुए श्याम लाल के घर होते हुए रामेश्वर के घर तक।  
 पूरब - रामेश्वर के घर से रामअवतार के घर होते हुए नांगवंशी के घर तक।  
 दक्षिण - नांगवंशी के घर से खेत होते हुए नदी तक।  
 पश्चिम - मदन के घर होते हुए श्यामलाल के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 15, बिरसामुंडा वार्ड :-**

- उत्तर — खेत से प्रमोद के घर तक।  
 पूरब — प्रमोद के घर से कन्हई सोनी के घर होते हुए गाब्रीयल मिंज के घर होते हुए प्रवीण के घर तक।  
 दक्षिण — प्रवीण के घर से रामेश्वर के घर होते हुए खेत तक।  
 पश्चिम — खेत होते हुए प्रमोद के घर तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक-एफ 1-36/2019/18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-36/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

**NOTIFICATION**

No. F 1-36/2019/18.- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Rajpur, Distt. Balrampur-Ramanujganj as per schedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Rajpur into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

**SCHEDULE**

S.No.of ward	Name of the ward
1	GURUGHASI DAS WARD
2	SANT GHYANESHWAR WARD
3	CHANDRASHEKHAR AZAD WARD
4	SARDAR VALLBH BHAI PATEL WARD
5	SARDAR BHAGAT SINGH WARD

6	DR. BHIMRAO AMBEDKAR WARD
7	Pt JAWAHARLAL NEHRU WARD
8	MAHATMA GANDHI WARD
9	RAJEEV GANDHI WARD
10	AGRASEN WARD
11	SWAMI VIVEKANAND WARD
12	RAVI DAS WARD
13	INDIRA GANDHI WARD
14	Dr. RAJENDRA PRASAD WARD
15	BIRSA MUNDA WARD

### **Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Rajpur**

#### **WARD NO 1. GURUGHASI DAS WARD**

- NORTH:- To pass form bar dohor to nadu's house and upto nageshwar's house to panhi drain
- EAST:- form panhi drain to vindod's house and passing form thibhu's house upto mahadev baba to katai dohor.
- SOUTH:- form katai dohor to passing form kadam dohor to raise dhondhi to dhanpal's house upto khathuria drain.
- WEST:- passing form khatkhuria dain to maina rajwar's house upto bar dohor.

#### **WARD NO 2. SANT GHYANESHWAR WARD**

- NORTH:- passing form katai dohor to kup karcha plantation via ajeet's house karranakha zingo nakha
- EAST:- passing form kup karcha plantation upto bathan plantaion.
- SOUTH:- form batthan plantation to passing form langra pond and electric post vankheta plantation upto gani dam
- WEST:- passing form gani dam gamhar longra plantation and ghotoria baba to passing form acchu's house, bayer dohor to semra dohor dam upto katai dohor.

#### **WARD NO 3. CHANDRASHEKHAR AZAD WARD**

- NORTH:- From Samra Sagon Plantion passing form upto vankheta pond.
- EAST:- From vankheta bank of semra terk plantaion upto Jal Sanshadhan Office.
- SOUTH:- From Jal Sanshadhan Office market and from bank of pond to passing form badkari para road to ramashankar's house plantation.
- WEST:- passig from noki boundary and bagadi boundary upto north semra teak.

**WARD NO 4. SARDAR VALLBH BHAI PATEL WARD**

- NORTH:- passing form nowki boundary triloki's house to bacchu lal's house to passing form farm upto badkari para road banyan tree.
- EAST:- from baldev's house to passing form luxmi's house upto mangal say's house, main road .
- SOUTH:- form mangal's house main road to passing form shivsharan's house upto triloki's house.
- WEST:- passing form boundary of garm panchayt noki upto beside bacchu lal's house.

**WARD NO 5. SARDAR BHAGAT SINGH WARD**

- NORTH:- Sandeep Lakda from home to Darha Baba Temple
- EAST:- To Pritam Ram house through Pani Tanki
- SOUTH:- Premnath soni from the house to Darha Baba Pond
- WEST:- From Bhim Bansal home to Darha Baba Temple

**WARD NO 6. DR. BHIMRAO AMBEDKAR WARD**

- NORTH:- To the Forest Department office being the residential plot of korwa colony
- EAST:- From the Forest Department office to the bus stand via Ramanujganj Road
- SOUTH:- From the house of Mo. Iqbal to Arjun Gupta Kabadi Shop
- WEST:- From the Mission School to the Bandhu Soni korwa colony

**WARD NO 7. PANDIT JAWAHARLAL NEHRU WARD**

- NORTH:- From Gandhi chouk to passing from ramanujganj main road upto boya high school road.
- EAST:- From boys high school road to passing fro, high school stadium ground to house of ram badan and maheshwar upto kusmi road budha bagicha.
- SOUTH:- Passing from house of ram bharose, kusmi road, Rajeev Gandhi aadarsh vidhyalay upto Gandhi chowk.
- WEST:- From Gandhi chowk to house of Bhim.

**WARD NO 8. MAHATMA GANDHI WARD**

- NORTH:- From house of bharat gupta to passing from main road and Gandhi chowk upto budha bagicha.
- EAST:- From budha bagicha to passing from house of jeevan agrawal upto farm.
- SOUTH:- Passing from house of Mathura and fram upto house of bharat.
- WEST:- Passing from farm, main road upto house of bharat.

**WARD NO 9. RAJEEV GANDHI WARD**

- NORTH:- Passing from house of brajesh and nandkeshwar main road upto house of rajendra tiwari.
- EAST:- Passing from house of rajendra tiwari to farm upto khutanpara farm.
- SOUTH:- Passing from khutanpara farm upto house of nandkeshwar brajesh.
- WEST:- Passing from house of nandkeshwar to main road.

**WARD NO 10. AGRASEN WARD**

- NORTH:- Viswnath panday from home to Sarswati home
- EAST:- From nandkeshwar's house to passing from farm upto khutanpara.
- SOUTH:- Passing from khutanpara farm upto baiju pond.
- WEST:- From baiju pond to silk farm road farm and passing from narad tiwari's house upto petrol pump.

**WARD NO 11. SWAMI VIVEKANAND WARD**

- NORTH:- From Vishwanath Pandey's house to Baiju Pond till the farm
- EAST:- Throug Indra Prasad house while going through the river
- SOUTH:- Jagmohan from house to Vishal house
- WEST:- At the house of Saraswati till Vishwanath Pandey house

**WARD NO 12. RAVI DAS WARD**

- NORTH:- From the house of somaru to shorai house and from Shyamsundar Pandey house to khutanpara Road
- EAST:- ShyamSundar Pandey house to Ram Avtar house
- SOUTH:- From the house of Ram Avatar while living at the house of Dhobi Ram to the khutanpara farm
- WEST:- By the house of Shri Ram khutanpara from the house of Dhobi Ram

**WARD NO 13. INDIRA GANDHI WARD**

- NORTH:- From beside shivkumar's house to passing from bargahpara road upto Shankar's house.
- EAST:- From shankar's house to passing from farm upto bindu's house.
- SOUTH:- Passing from bindu's house and khelsay's house upto river.
- WEST:- Passing from premsay's house and nansay's house upto indraprasad house.

**WARD NO 14. DR. RAJENDRA PRASAD WARD**

- NORTH:- From sohrai's house to Passing from khutanpara road and shyamlal's house upto rameshwar's house.
- EAST:- From rameshwar's house to passing from ramavtar's house upto nagwanshi's house.
- SOUTH:- From nagwanshi's house to passing from upto river.
- WEST:- Passing from madan's house upto shyamlal's house.

**WARD NO 15. BIRSA MUNDA WARD**

- NORTH:- From farm to pramod's house.
- EAST:- From pramod's house to passing from kanhiya soni's house and gabriyal minj's house upto praveen's house.
- SOUTH:- From Praveen's house to passing from raheswar's house upto farm.
- WEST:- Passing from farm to pramod's house.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,  
R.EKKA, Deputy Secretary.